

24

राजस्थान राजकार
राजस्थान(गृप-6)विभाग

प्र०क्रम ९(८)राजा. ६/०७/२४

जयपुर, दिनांक:- १७.९.२००७

राष्ट्रीय जिला कलेक्टर,

राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान गृ. राजस्थान(प्राणी) क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु गृणि संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम ५ व नियम ६ में यह प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अभिधारी निवास गृह, पशु-शाला, भंडार गृह, लघु उद्योग एवं कजावा के लिये इन नियमों में विहित सीमा तक अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग बिना अनुमति के कर सकता है।

उवत प्रावधानों ने यह सामर्थ्य आ रही है कि ऐसे खातेदारों को औपचारिक संपरिवर्तन आदेशों के बिना वित्तीय संस्थाओं ने त्राण नहीं दिला रहा है।

अतः इस रावंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिला कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा जहाँ भी ऐसे खातेदार अभिधारियों द्वारा आवेदन किया जावे तो इन नियमों में विहित सीमा तक औपचारिक संपरिवर्तन आदेश जारी करायेंगे ताकि ऐसे खातेदार अभिधारी वित्तीय संस्थाओं से त्राण प्राप्त कर सके।

उप शासन सचिव १७.९.०७

प्राप्तिलिपि:- निम्नान्वित का सूतनाथ एवं आवश्यक कागजाएँ हेतु प्राप्त हैं।

- 1.प्र०राजायक, प्र०० राजस्थान गृनी गहोदग।
- 2.निर्जी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
- 3.निबन्धक, राजस्थान मंडल, राजा० अजगेर।
- 4.समरत उप शासन सचिव, राजस्थान विभाग।
- 5.रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव १७.९.०७

१०८२५७

१०८२८

१०८२९

१०८३०

१०८३१

१०८३२

१०८३३

१०८३४

१०८३५

१०८३६

१०८३७

१०८३८

१०८३९

१०८४०

१०८४१

१०८४२

१०८४३

१०८४४

१०८४५

१०८४६

१०८४७

१०८४८

१०८४९

१०८५०

१०८५१

१०८५२

१०८५३

१०८५४

१०८५५

१०८५६

१०८५७

१०८५८

१०८५९

१०८६०

१०८६१

१०८६२

१०८६३

१०८६४

१०८६५

१०८६६

१०८६७

१०८६८

१०८६९

१०८७०

१०८७१

१०८७२

१०८७३

१०८७४

१०८७५

१०८७६

१०८७७

१०८७८

१०८७९

१०८८०

१०८८१

१०८८२

१०८८३

१०८८४

१०८८५

१०८८६

१०८८७

१०८८८

१०८८९

१०८९०

१०८९१

१०८९२

१०८९३

१०८९४

१०८९५

१०८९६

१०८९७

१०८९८

१०८९९

१०८९००

१०८९०१

१०८९०२

१०८९०३

१०८९०४

१०८९०५

१०८९०६

१०८९०७

१०८९०८

१०८९०९

१०८९१०

१०८९११

१०८९१२

१०८९१३

१०८९१४

१०८९१५

१०८९१६

१०८९१७

१०८९१८

१०८९१९

१०८९२०

१०८९२१

१०८९२२

१०८९२३

१०८९२४

१०८९२५

१०८९२६

१०८९२७

१०८९२८

१०८९२९

१०८९३०

१०८९३१

१०८९३२

१०८९३३

१०८९३४

१०८९३५

१०८९३६

१०८९३७

१०८९३८

१०८९३९

१०८९३३०

१०८९३३१

१०८९३३२

१०८९३३३

१०८९३३४

१०८९३३५

१०८९३३६

१०८९३३७

१०८९३३८

१०८९३३९

१०८९३३००

१०८९३३०१

१०८९३३०२

१०८९३३०३

१०८९३३०४

१०८९३३०५

१०८९३३०६

१०८९३३०७

१०८९३३०८

१०८९३३०९

१०८९३३०००

१०८९३३००१

१०८९३३००२

१०८९३३००३

१०८९३३००४

१०८९३३००५

१०८९३३००६

१०८९३३००७

१०८९३३००८

१०८९३३००९

१०८९३३००००

१०८९३३०००१

१०८९३३०००२

१०८९३३०००३

१०८९३३०००४

१०८९३३०००५

१०८९३३०००६

१०८९३३०००७

१०८९३३०००८

१०८९३३०००९

१०८९३३०००००

१०८९३३००००१

१०८९३३००००२

१०८९३३००००३

१०८९३३००००४

१०८९३३००००५

१०८९३३००००६

१०८९३३००००७

१०८९३३००००८

१०८९३३००००९

१०८९३३००००००

१०८९३३०००००१

१०८९३३०००००२

१०८९३३०००००३

१०८९३३०००००४

१०८९३३०००००५

१०८९३३०००००६

१०८९३३०००००७

१०८९३३०००००८

१०८९३३०००००९

१०८९३३०००००००

१०८९३३००००००१

१०८९३३००००००२

१०८९३३००००००३

१०८९३३००००००४

१०८९३३००००००५

१०८९३३००००००६

१०८९३३००००००७

१०८९३३००००००८

१०८९३३००००००९

१०८९३३००००००००

१०८९३३०००००००१

१०८९३३०००००००२

१०८९३३०००००००३

१०८९३३०००००००४

१०८९३३०००००००५

१०८९३३०००००००६

१०८९३३०००००००७

१०८९३३०००००००८

१०८९३३०००००००९

१०८९३३०००००००००

१०८९३३००००००००१

१०८९३३००००००००२

१०८९३३००००००००३

१०८९३३००००००००४

१०८९३३००००००००५

१०८९३३००००००००६

१०८९३३००००००००७

१०८९३३००००००००८

१०८९३३००००००००९

१०८९३३००००००००००

१०८९३३०००००००००१

१०८९३३०००००००००२

१०८९३३०००००००००३

१०८९३३०००००००००४

१०८९३३०००००००००५

१०८९३३०००००००००६

१०८९३३०००००००००७

१०८९३३०००००००००८

१०८९३३०००००००००९

१०८९३३०००००००००००

१०८९३३००००००००००१

१०८९३३००००००००००२

१०८९३३००००००००००३

१०८९३३००००००००००४

१०८९३३००००००००००५

१०८९३३००००००००००६

१०८९३३००००००००००७

१०८९३३००००००००००८

१०८९३३००००००००००९

१०८९३३०००००००००००

१०८९३३००००००००००१

१०८९३३००००००००००२

१०८९३३००००००००००३

१०८९३३००००००००००४

१०८९३३००००००००००५

१०८९३३००००००००००६

१०८९३३००००००००००७

१०८९३३००००००००००८

१०८९३३००००००००००९

१०८९३३०००००००००००

१०८९३३००००००००००१

१०८९३३००००००००००२

१०८९३३००००००००००३

१०८९३३००००००००००४

१०८९३३०००००००००००५

१०८९३३०००००००००००६

१०८९३३०००००००००००७

१०८९३३०००००००००००८

१०८९३३०००००००००००९

१०८९३३००००००००००००

१०८९३३०००००००००००१

१०८९३३०००००००००००२

१०८९३३०००००००००००३

१०८९३३०००००००००००४

१०८९३३०००००००००००५

१०८९३३०००००००००००६

१०८९३३०००००००००००७

१०८९३३०००००००००००८

१०८९३३०००००००००००९

१०८९३३००००००००००००

१०८